



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आश्विन 1934 (श0)
(सं0 पटना 566) पटना, वृहस्पतिवार, 18 अक्टूबर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-25/2012/9654—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है,

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का निर्वाचन उसकी उपविधियाँ, बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के संगत प्रावधानों के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया है,

और, चूँकि प्रत्येक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में ग्रुप-I से 1(एक) अध्यक्ष, 1(एक) उपाध्यक्ष, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से 1(एक) निदेशक, पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-2) कोटि से 1(एक) निदेशक, महिला कोटि से 2(दो) निदेशक, सामान्य कोटि से 2(दो) निदेशक, प्रोफेशनल कोटि से 2(दो) निदेशक, ग्रुप-II से पिछड़ा वर्ग (एनेक्सचर-1) कोटि से 1(एक) निदेशक तथा ग्रुप-III से अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से 1(एक) निदेशक तथा प्रोफेशनल कोटि से 1(एक) निदेशक के पद पर निर्वाचन कराया जाना है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **परिशिष्ट-2** में अंकित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल (अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष सहित) के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 27.11.2012

(मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित जिला केन्द्रीय बैंक के डेलीगेटों से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ उपविधियां तथा प्राधिकार के निदेशों के अधीन निदेशक मंडल के पदधारकों को निर्वाचित करें।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.10.2012 को संलग्न प्रपत्र-1 (**परिशिष्ट-3**) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

सविरोध निर्वाचन की स्थिति में निदेशक मंडल के पदधारकों के निर्वाचन हेतु मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,

एन0 एस0 माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 566-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>